



## मध्यप्रदेश में एजुकेट गर्ल्स ने शुरू किया राशन वितरण का दूसरा चरण

- एजुकेट गर्ल्स ने इस आपातकाल दौरान जिले के 3 विकासखंडों में स्थित 7 गांवों के जरूरतमंद परिवारों तक सहयोग पहुंचाने के लिए दोबारा चिन्हित किया।
- अपने दूसरे चरण में 4300 जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया राशन।

18 जून 2020: राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 20 जिलों में बालिका शिक्षा के लिए कार्यरत गैर-लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स ने, कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय अति प्रभावित परिवारों को पुनः राशन के वितरण का कार्य प्रारम्भ किया।

मध्यप्रदेश की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है और अभी तक राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11083 हो गयी है और साथ ही इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी सुधार आया है। ग्रामीण इलाकों में वायरस के फैलने से, भारत के सबसे दूरदराज के गांवों में आजीविका की समस्या, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा की कमी और अन्य बुनियादी जरूरतों के आभाव ने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। एजुकेट गर्ल्स ऐसे गांवों की पहचान की जहाँ समुदाय के लोगों को दैनिक आवश्यकताओं जैसे कि, किराने का सामान, सैनिटाइज़र और मास्क प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गांवों में स्कूल जाना छोड़ चुके बच्चों की संख्या अधिक है, साथ ही इन जगहों पर जरूरी सामान जैसे चिकित्सा से जुड़े सामान बमुश्किल ही लोगों तक पहुँच पाता है। एजुकेट गर्ल्स ने प्रदेश के चार जिलों में एक बार फिर राशन बाँटने का काम शुरू किया है। इसके अलावा संस्था के फील्ड कोर्डिनेटर और टीम बालिकाओं (स्वयंसेवक) ने इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मज़दूरों को उनके गांव में ही या आसपास चल रही "मनरेगा" जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया है। एजुकेट गर्ल्स उन सभी गांवों में सहायता पहुंचा कर COVID-19 से पैदा हुयी मुश्किलों को कम करने का प्रयास कर रही हैं।

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में बालिका शिक्षा के लिये कार्यरत संस्था एजुकेट गर्ल्स द्वारा स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशन व जिला प्रबंधक श्री विपीन बहादुर और जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र चौहान के मार्गदर्शन में बीते मंगलवार और बुधवार को 3 ब्लॉक के 7 गांवों में 4300 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। श्री विपीन बहादुर ने बताया कि, इस वैश्विक महामारी के दौर में जिले के सुदूर अंचलों में रहने वाले जरूरतमंद समुदाय जो की समाज की मुख्यधारा से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं। उन्हें चिन्हित कर उन तक राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, ताकि इस संकट के दौरान राहत मिल सके। एजुकेट गर्ल्स द्वारा राशन सामग्री पैकेट में गेहूँ का आटा, तेल, नमक, चावल, चना, दाल, रिफाइंड तेल, तुवर दाल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कपड़े धोने व नहाने का साबुन जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं दी जा रही हैं।

राशन वितरण के दौरान संस्था समाज में बालिका शिक्षा को लेकर भी समुदाय को जागरुक कर है, जिससे की समाज में बालिका शिक्षा को लेकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा व आगामी समय में अधिक से अधिक बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में करवाने में सहायता मिलेगी। इस प्रयास के साथ संस्था के कार्मिकों व टीम बालिकाओं ने लोगों को कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देश भी बताये। राशन वितरण के दौरान सभी कार्मिकों ने लोगों को समझाया कि, बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें और अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। राशन वितरण के दौरान एजुकेट गर्ल्स की ओर से (नाम.....) सहित अन्य साथी उपस्थित थे।

**एजुकेट गर्ल्स**- 2007 में स्थापित एजुकेट गर्ल्स का ध्यान, सरकार के निवेश का लाभ उठाकर समुदाय को एकत्र करने और भारत में लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाना है। संस्था राजस्थान और मध्यप्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में स्कूली बालिकाओं की पहचान, नामांकन और ठहराव के लिए उनकी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार लाने के लिए सरकार व समुदाय के साथ साझेदारी में काम करती है। एजुकेट गर्ल्स "सर्व शिक्षा अभियान" के तहत और सरकार के विज्ञान अनुसार बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य करती है, विशेषकर युवा बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच को सुगम बनाती है। स्कूल में सरकार के मौजूदा निवेश का लाभ उठाकर एजुकेट गर्ल्स बड़ी संख्या में लाभार्थियों को एक अनुमानित परिणाम प्रदान करती है। संस्था राजस्थान और मध्यप्रदेश के लगभग 14,000 गांवों में सरकार और ग्रामीण समुदायों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। एजुकेट गर्ल्स ने अभी तक सरकारी स्कूलों में 5,00,000 से अधिक लड़कियों को दाखिला दिलवाने में उनकी मदद की है, और नामांकन के बाद 94% से अधिक लड़कियों के स्कूल में ठहराव को भी सुनिश्चित किया है।

ज्यादा जानकारी के लिए [Website](#) | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Blog](#) | [YouTube](#) पर जायें।